

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 544]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 नवम्बर 2014—अग्रहायण 6, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2014

फा. क्र. 17(ई)-261-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला होशंगाबाद, भोपाल (तहसील बैरसिया) एवं मन्दसौर (मध्यप्रदेश) हेतु नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

नगरपालिका, होशंगाबाद

सेक्टर अधिकारी की सूची

क्र. (1)	सेक्टर आफिसर का नाम व पद एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	मोबाइल नं. (3)
1	श्री राजेश दुबे, सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, होशंगाबाद	—
2	श्री दीपक काटेकर, ग्रामी. यांत्रिकी सेवा, होशंगाबाद	9425041776
3	श्री एस. आर. कोली, उप संचालक, खादी ग्रामोद्योग, होशंगाबाद	7869601419
4	श्रीमति सुचिता तिकी, उप संचालक, सामाजिक न्याय, होशंगाबाद	9893860721
5	श्रीमती श्वेता जाधव, उप संचालक, महिला सशक्तीकरण, होशंगाबाद	9977919111
6	श्रीमति माधवी सिंह, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास (ग्रामी.), होशंगाबाद	9826276787

(1)	(2)	(3)
7	श्रीमति नीलम सिंह, सहायक श्रमायुक्त, होशंगाबाद	9926923978
8	श्री एस. सी. बनवल, प्रबंधक, म. प्र. ग्रामी. सड़क विकास प्राधिकर., पी.आई.यू., होशंगाबाद	9425671120
9	श्रीमति मनोरमा गढवाल, महिला बाल विकास अधिकारी, होशंगाबाद	9893452742
10	श्री व्ही. के. जैन, वरि. जिला पंजीयक, होशंगाबाद	9425367616
11	श्री एल. सुलेखिया, विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, होशंगाबाद	7354025666
12	श्री एस. डी. कस्तूरे, फील्ड आफिसर, रेशम, होशंगाबाद	9424469661
13	श्री पी. के. रघुवंशी, सहायक यंत्री, तवा परियोजना, डोलरिया	9302168222

नगरपालिका, इटारसी

सेक्टर अधिकारी की सूची

क्र. (1)	सेक्टर आफिसर का नाम व पद एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	मोबाइल नं. (3)
1	श्री योगेश घाघरे, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास, इटारसी	9826748422
2	श्री डी. के. वासवानी, सहायक यंत्री, कृषि, इटारसी	9827455344
3	श्रीमती आशा मौर्य, बी. ई. ओ., आदिवासी विकास, इटारसी	9827541784
4	श्री ए. के. यादव, एस. डी. ओ., तवा परियोजना, इटारसी	9424483070
5	श्री डी. आर. इवने, सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, केसला	9826981607
6	श्री प्रकाश काकडे, अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी, उपनहर उपसंभाग, होशंगाबाद	9755215667
7	श्री एस. सी. रैकवार, सहा. यंत्री, तवा परियोजना, इटारसी	9713551177
8	श्री व्ही. एल. गुप्ता, सहा. यंत्री, तवा परियोजना, इटारसी	7827383802
9	श्री राजेश सतोरे, सहा. यंत्री, तवा परियोजना, इटारसी	9893803635
10	श्री किशोर कुमार महेश्वरी, सचिव, कृषि उपज मंडी, इटारसी	9893389537
11	श्री एम. एल. सोनिया, उपयंत्री, तवा परि., इटारसी	9827343665
12	श्री एम. एल. मसोड़कर, उपयंत्री, तवा परि., इटारसी	9907327789

नगरपालिका, पिपरिया

सेक्टर अधिकारी की सूची

क्र. (1)	सेक्टर आफिसर का नाम व पद एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	मोबाइल नं. (3)
1	श्री दिनेश गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पिपरिया	9826575644
2	श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी, सहायक यंत्री, पी. एच.ई., पिपरिया	9425161420
3	श्री गया प्रसाद पटले, सहायक यंत्री, विद्युत एवं नलकूप पिपरिया, होशंगाबाद	9407868017

(1)	(2)	(3)
4	श्री गंभीर सिंह साकेत, विकासखण्ड, शिक्षा अधिकारी, पिपरिया	9406945312
5	सुश्री सपना मानकर, अनुविभागीय अधिकारी, माछा उपसंभाग, पिपरिया	7566698187
6	श्री एस. के. प्रजापति, फील्ड आफिसर, रेशम, पिपरिया	9424414485
7	श्री पी. एल. जैन, पशु चिकित्सा शल्यज्ञ, पिपरिया	9424469674
8	श्री संजय सराटे, पशु चिकित्सा शल्य., पचमढी	9479581848
9	श्री हेमराज वट, वनक्षेत्र अधिकारी, पिपरिया	9424792059

नगर परिषद्, बाबई

सेक्टर अधिकारी की सूची

क्र. (1)	सेक्टर आफिसर का नाम व पद एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	मोबाइल नं. (3)
1	श्री के. एस. राजपूत, उपयंत्री, सिंचाई विभाग, बाबई	9425366487
2	श्री पी. एल. दायमा, एस. डी. ओ., सिंचाई विभाग, बाबई	9993179316
3	श्री मनोज जैन, प्रबंधक, एम. ए. एफ., बाबई	9425080525
4	श्री ए. के. साहू, उपप्रबंधक, एम. पी. एग्री, बाबई	9039047380
5	श्री सी. डी. खरे, सहायक यंत्री, प्रधानमंत्री सड़क परियोजना, होशंगाबाद	9425824192

नगर पालिका, सिवनी मालवा

सेक्टर अधिकारी की सूची

क्र. (1)	सेक्टर आफिसर का नाम व पद एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	मोबाइल नं. (3)
1	श्री किशोर शर्मा, कार्यपालन यंत्री, तवा परियोजना संभाग, सिवनीमालवा	9424410214
2	श्री डी. पी. तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी, तवा परियोजना, सिवनीमालवा	9826093637
3	श्री मोजीलाल पाराशर, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, तवा संभाग, सिवनीमालवा	9425358296
4	श्री डी. के. हवलदार, प्रबंधक, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, सिवनीमालवा	9301190371
5	श्री राम कुमार सोनी, महिला बाल विकास अधिकारी, सिवनीमालवा	8989439460
6	श्री बी. के. पाण्डे, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सिवनीमालवा	9826614457

नगर पालिका, सोहागपुर

सेक्टर अधिकारी की सूची

क्र. (1)	सेक्टर आफिसर का नाम व पद एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	मोबाइल नं. (3)
1	श्री राजेन्द्र कुमार गजभिये, अ. वि. अ., सोहागपुर	9424453767
2	श्री के. पी. कोरी, सहायक यंत्री, तवा परियोजना, सोहागपुर	9424629412

(1)	(2)	(3)
3	श्री पी. के. खातिरकर, सहायक यंत्री, तवा परियोजना, सोहागपुर	9827751924
4	श्री एल. पी. गौड़, कार्यपालन यंत्री, तवा परियोजना, सोहागपुर	9424705384
5	श्रीमति आरती सिंह ठाकुर, सहा. यंत्री, तवा परियोजना, सोहागपुर	9589395904
6	श्री इन्द्रसिंह धाकड़, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सोहागपुर	9424792046

जिला भोपाल (तहसील बैरसिया)

क्र.	सेक्टर मजि. का नाम व पदनाम	मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
(1)	(2)	(3)
1	श्री एन. के. जैन, अनुविभागीय अधिकारी, लो. नि. वि., बैरसिया, जिला भोपाल.	1 आंगनवाड़ी भवन टंकी के पास काली मस्जिद, बैरसिया 2 गीतांजली प्रा. शा. क., बसई 3 स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, बैरसिया बूथ-1 4 स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, बैरसिया बूथ-2 5 बा. मा. शाला, बसई बूथ-1 6 बा. मा. शाला, बसई बूथ-2 11 प्रा. शा., छीपापुरा
2	श्री अजय कोटेचा, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, बैरसिया, जिला भोपाल	7 मा. शा. भवन, खूटियापुरा 8 मा. शा. भवन मौलाना आजाद बूथ-1 9 आंगनवाड़ी भवन काजीपुरा, बैरसिया 10 नगर पालिका कार्यालय भवन बैरसिया "दक्षिणी भाग सभा कक्ष" 14 मांगलिक भवन अदालत के सामने 17 मा. शा. जवाहर स्कूल, बैरसिया 19 मा. शा. जवाहर स्कूल
3	श्री एस. के. मालवीय अनुविभागीय अधिकारी, लो. स्वा. यांत्रिकी विभाग, बैरसिया, जिला भोपाल	18 कृषि उपज मण्डी कृषक विश्राम गृह दक्षिणी भाग, बैरसिया 15 जनपद पंचायत, सभा कक्ष पूर्वी भाग बूथ-1 16 जनपद पंचायत, सभा कक्ष पश्चिमी भाग बूथ-2 21 सिंचाई विभाग भवन कार्यालय, बैरसिया 22 ठाकुर लाल सिंह बा. उ. मा. वि., बैरसिया बूथ-1 23 ठाकुर लाल सिंह बा. उ. मा. वि., बैरसिया बूथ-2 20 सरोजिनी नायडू क. उ. मा. वि., बैरसिया 12 सरोजिनी नायडू क. उ. मा. वि., बैरसिया बूथ-1 13 सरोजिनी नायडू क. उ. मा. वि., बैरसिया बूथ-2
4	श्री संजीव श्रीवास्तव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बैरसिया, जिला भोपाल	रिजर्व

जिला मन्दसौर

क्र. (1)	नगरीय निकाय का नाम (2)	सेक्टर क्र. (3)	मतदान केन्द्र क्रमांक (4)	संशोधित नियुक्त सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पदनाम (5)
1	पिपलियामण्डी	03	4,5,6,7,8,9	श्री विनय कुमार सिंह कुशवाहा, सहायक प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास प्राधिकरण, मंदसौर.
2	नारायणगढ़	03	2,3,6	श्री महिपाल सेंगर, सहायक यंत्री, जल संसाधन, मंदसौर
3	शामगढ़	01	1,2,3,4,5,6,7,8	श्री बी. एस. चौहान, परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. महिला बाल विकास, मंदसौर.
4	रिजर्व	-	-	श्री एस. आर. चौहान, सहायक यंत्री, जल संसाधन, मंदसौर
5	रिजर्व	-	-	श्री एस. के. श्रीवास्तव, प्रबंधक, एम. पी. स्टेट एग्री, मंदसौर